

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 173]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 जून 2023—ज्येष्ठ 11, शक 1945

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 1 जून, 2023 (ज्येष्ठ 11, 1945)

क्र. 10454-म.प्र.वि.स.-15-विधान-2023.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्द्वारा, इस राज्य की विधान सभा का सत्रावसान करता हूँ.

भोपाल :
दिनांक : 1 जून, 2023.

मंगुभाई पटेल
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.”

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.